



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1946 (श10)

(सं0 पटना 1045) पटना, बुधवार, 30 अक्टूबर 2024

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

25 अक्टूबर 2024

सं० यो0स्था06/3-32/2023-6106/यो0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -

- (1) यह नियमावली बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-10 का प्रतिस्थापन।-

उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“सहायक अभियंता के पद पर योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।”

3. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-11 (i) का प्रतिस्थापन। -

उक्त नियमावली के नियम-11(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक को पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष के भीतर राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित प्रासंगिक विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में वेतनवृद्धि तबतक नहीं दी जायेगी, जबतक कि वह परीक्षोत्तीर्ण न हो जाय।”

4. बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016 के नियम-12 का प्रतिस्थापन। -

उक्त नियमावली के नियम-12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा किया जा सकेगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार,
प्रधान सचिव।

The 25th October 2024

No. Yo.Stha.6/3-32/2023-6106 / PD--In exercise of the power conferred under proviso to Article- 309 of the constitution of India, The Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend "Bihar Local Area Engineering Service Rule, 2016"

1. Short title, extent and Commencement :

- (1) These Rules may be called "Bihar Local Area Engineering Service (Amendment) Rule, 2024"
- (2) It shall extend to the whole to the Sate of Bihar.
- (3) It shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of Rule-10 of Bihar Local Area Engineering Service Rules, 2016.

Rule-10 of the said rules shall be Substituted by the following:-

"A person shall be declared probationary from the date of joining (appointment) to the post of Assistant Engineer. The period of probation shall be of 01 (one) year. If the service is not satisfactory during the probation period, it may be extended for 01 (one) more year. If the service is not satisfactory even during the extended period, the service may be terminated."

3. Substitution of Rule 11 (i) of "Bihar Local Area Engineering Service Rule, 2016"

The Rule 11 (i) of the said Rules shall be substituted by the following:-

"If a government servant appointed through direct recruitment does not pass the relevant departmental examination conducted by the Board of Revenue within One year from the date of joining the post, he will not be given further increment until he passes the examination."

4. Substitution of Rule 12 of "Bihar Local Area Engineering Service Rule, 2016"

The Rule 12 of the said Rules shall be substituted by the following:-

" The subject, syllabus and procedure of the departmental exam will be regulated by Board of Revenue, Bihar, Patna. "

By the order of Governor of Bihar,
K. Senthil Kumar,
Principal Sercretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1045-571+10-डी०टी०पी० ।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>